

L805

EPSON

EXCEED YOUR VISION

EN Start Here

TC 安裝說明

HI यहाँ आरंभ करें

MN Энд эхлэ



© 2015 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
Printed in XXXXXX

Read This First / पहले इसे पढ़ें / 請先閱讀本說明 / Эхлээд Үүнийг Уншина уу

This printer requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.


यह प्रिंटर इंक के सावधानीपूर्ण प्रयोग की मांग करता है। जब इंक टैंक भरे हों या रफिलि करिए जा रहे हों, तो इंक की छींटे फैल सकती हैं। अगर इंक आपके या आपके सामान पर गिरि जाती है, तो साफ नहीं हो सकती है।

請小心處理印表機的墨水。當將墨水裝入或填充至大容量墨水槽時，墨水可能會濺灑出。如果墨水滴到您的衣物或物品，可能會無法清除乾淨。

Принтерийн бэхтэй болгоомжтой харьцах шаардлагатай. Бэхний савыг бэхээр дүүргэх юмуу дахин цэнэглэх үед бэх цацагдаж болзошгүй. Хэрэв бэх таны хувцас юмуу эд зүйлсэн дээр асгарвал арилахгүй байж магадгүй.

! Important; must be observed to avoid damage to your equipment.
वशिष; अपने उपकरण की सुरक्षा के लिये ध्यान देना चाहिए।
重要事項：務必遵守重要事項說明，避免您的設備受損。
Санамж: төхөөрөмжөө гэмтээхээс зайлсхийхийн тулд заавал дагаж мөрдөөрэй.

1



Contents may vary by location.

स्थान के आधार पर वस्तुएं अलग हो सकती हैं।

內容可能因地點而有不同。

Байршлаас хамаарч агуулга өөр өөр байж болно.

- Do not open the ink bottle package until you are ready to fill the ink tank. The ink bottle is vacuum packed to maintain its reliability.
- Even if some ink bottles are dented, the quality and quantity of ink are guaranteed, and they can be used safely.
- जब तक आप टैंक में इंक भरने के लिए तैयार न हों, तब तक इंक बोतल के पैकेज को न खोलें। बेहतर गुणवत्ता के लिए इंक बोतल वैक्यूम पैक होती है।
- अगर कुछ इंक बोतलें पचिकी हुई भी हों, तब भी इंक की गुणवत्ता और मात्रा विश्वसनीय है, और उनका उपयोग सुरक्षित है।
- 墨水瓶拆封後，應立即填充大容量墨水槽。墨水瓶是以真空包裝以維持其可靠性。
- 即使部分墨水瓶出現凹痕，也不會影響墨水品質及墨水量，可安心使用。
- Бэхний савыг дүүргэхэд бэлэн болтлоо бэхний лонхны баглааг бүү онгойлго. Найдвартай байдлыг хадгалахын тулд бэхний лонхыг вакуумд багласан байгаа.
- Хэрэв зарим бэхний лонх хонхойсон байсан ч бэхний чанар болон тоо хэмжээ нь баталгаатай тул хэрэглэхэд аюулгүй.

2

Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
USB के बल को तब तक न जोड़ें, जब तक ऐसा करने का निर्देश ना मिले।
除非有指示要求，否則請勿連接 USB 連接線。
Зааварчилгаа өгөөгүй бол USB кабелиг бүү холбо.

Windows

Insert the CD and follow the on-screen instructions to finish the setup process.
सीडी को लगाएँ और सेटअप प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।
放入光碟並依照螢幕上的指示完成安裝程序。
CD-г хийгээд дэлгэцэн дээрх зааварчилгааг дагаж тохируулгыг дуусгана.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
अगर फायरवाल चेतावनी दखिती है, तो Epson एप्लीकेशनों को पहुँच की अनुमति दें।
若出現“防火牆”警示訊息，請確認發行者為 Epson，然後才開啓 Epson 應用程式。
Хэрвээ Галт ханын сэрэмжлүүлэг гарч ирвэл Epson-ы програмуудад хандалтыг зөвшөөр.

Windows (No CD/DVD drive) Mac OSX No PC

Proceed to the next step (Section 3).
अगले चरण की ओर बढ़ें (खंड 3)।
繼續下一個步驟 (單元 3)。
Дараагийн алхам руу шилж (3-р хэсэг)。

3

Remove all protective materials.
सभी सुरक्षा आवरणों को निकाल दें।
移除保護膠帶。
Хамгаалалтын бүх материалуудыг авна.

Unhook and lay down.
अनहुक करें और नीचे रख दें।
將大容量墨水槽從印表機上取下，然後將其平放。
Дэгээг мулталж, доош нь налуулж тавьна.

Do not pull the tubes.
ट्यूबों को न निकालें।
請勿拉扯墨水導管。
Хоолойнуудыг бүү тат.

Open and remove.
खोलें और बाहर निकालें।
打開大容量墨水槽護蓋並拔下瓶蓋。
Нээгээд авна.

- Use the ink bottles that came with your printer.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.
- अपने प्रिंटर के साथ प्राप्त हुए इंक बोतलों का प्रयोग करें।
- Epson नकली इंक के प्रयोग की गुणवत्ता और विश्वनसियता की गारंटी नहीं दे सकता है। नकली इंक के प्रयोग से होने वाला नुकसान Epson की वारंटियों के तहत नहीं आता है।
- 請使用印表機內附的墨水瓶。
- Epson 不保證非原廠墨水的品質或可靠性。使用非原廠墨水而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。
- Таны принтертэй хамт ирсэн бэхний лонхыг хэрэглээрэй.
- Жинхэнэ бус бэхний чанар болон найдвартай байдалд Epson баталгаа өгөхгүй. Жинхэнэ бус бэх хэрэглэх нь Epson-ны баталгаанд үл хамрагдах гэмтэл учруулж болзошгүй.

Snap off, remove, and then close tightly.
खोलें, बाहर निकालें, और बाद में ठीक से कसकर बंद कर दें।
拔下墨水瓶蓋上的栓子，打開瓶蓋並移除封條，然後裝回瓶蓋。
Үзүүрийг нь хугалж аваад чанга таглана.

5

Match the ink color with the tank, and then fill with all of the ink.
इंक के रंग को टैंक के रंग से मिलाएँ, और उसके बाद पूरी इंक भर दें।
確定墨水顏色與大容量墨水槽相符，然後裝入所有墨水。
Бэхний өнгийг савны өнгөтэй ижилсүүлж бэхийг бүгдийг нь хийж дүүргэнэ.

Install.
इंस्टाल करें।
使用栓子密封住墨水瓶。
Суурилуул.

Close securely.
सुरक्षित रूप से बंद कर दें।
將大容量墨水槽瓶蓋牢牢拴緊。
Сайтар таглана.

Repeat steps 3 to 6 for each ink bottle.
प्रत्येक इंक बॉटल के लिए 3 से 6 चरणों को दोहराएं।
重覆步驟 3 至 6，裝入其他顏色的墨水。
Бэхний лонх тус бүрт 3 -аас 6 хүртэлх алхмуудыг давтана.

Close.
बंद करें।
闔上。
Хаана.

Hook onto the printer.
प्रिंटर को हुक करें।
將大容量墨水槽掛回印表機上。
Принтерт залга.


Connect and plug in.
जोड़ें और प्लग लगाएं।
連接電源線並插入電源插座。
Холбоод тогонд залгана.

Turn on the printer and wait until the power button stops flashing.
प्रिंटर को शुरू करें और प्लग के चमकने से रुकने का इंतजार करें।
開啓印表機電源，並等待電源燈號停止閃爍。
Принтерээ асаагаад анивчихаа болих хүртэл хүлээнэ.





Press **⏻** for **3 seconds** until **⏻** starts flashing. Ink charging starts.
जब तक **⏻** चमकना शुरू न करें तब तक **⏻** को **3 सेकंड** के लिए दबाएं। इंक चार्जिंग आरंभ।
按住 **⏻** 鍵 **3 秒**，直到 **⏻** 燈號開始閃爍。墨水設定隨即開始。
⏻ अनिचिज эхлэх хүртэл **3 секунд** **⏻** дээр дарна. Бэх цэнэглэлт эхэлнэ.



Charging ink takes about 20 minutes. Wait until the light turns on.
इंक चार्ज करने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। लाइट जलने तक इंतजार करें।
墨水設定大約需要 20 分鐘。請等待燈號亮起。
Бэх цэнэглэлтэд 20 минут орчим шаардагдана. Гэрэл асах хүртэл хүлээнэ үү.

14 Windows (No CD/DVD drive) Mac OS X iOS/Android



Visit the website to start the setup process, install the Epson iPrint application, and configure network settings.

सेटअप प्रक्रिया आरंभ करने के लिए वेबसाइट पर जाएँ, Epson iPrint एप्लिकेशन इंस्टॉल करें, और नेटवर्क सेटिंग को कॉन्फिगर करें।
請瀏覽網站，瞭解如何開始安裝程序、安裝 Epson iPrint 應用程式及進行網路設定。

Тохируулгын явцыг эхлүүлэн, Epson iPrint програмыг суулгаж, сүлжээний тохиргоог хийхийн тулд вэб хуудсанд зочлоорой.




Make sure to hook the tank unit before printing. Do not lay the unit down, or position it higher or lower than the printer.

प्रिंटिंग शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि टैंक ठीक से बंद है। यूनिट को फेलाए नहीं, या उसे प्रिंटर से ऊपर या नीचे न रखें।


在開始列印前，務必掛回大容量墨水槽。請勿將其平放，或放置在高於或低於印表機的位置。

Хэвлэхийн өмнө савны нэгжийг бэхэлсэн эсэхээ магадла. Нэгжийг доош нь налууулж тавих, эсвэл принтерээс дээр юмуу доор байрлуулж болохгүй.



Basic Operations / मूल आप्रेशंस / 基本操作 / Үндсэн Үйлдлүүд

Guide to Control Panel / कंट्रोल पैनल के लिए नरिदेश। / 控制面板說明 / Хянах Самбарын Зааварчилгаа



⏻ Turns the printer on or off.
प्रिंटर को ऑन या ऑफ करें।
開啓或關閉印表機電源。
Принтерийг асаах юмуу унтраана.

Wi-Fi Clears a network error. Hold down for more than **3 seconds** to make network settings using the WPS button on a access point. See the *Network Guide*.

नेटवर्क त्रुटि हटाता है। WPS बटन का उपयोग करके नेटवर्क सेटिंग बनाएँ के लिए पहुँच बटु पर **3 सेकंड** से अधिक अवधि तक नीचे की ओर दबाएँ। नेटवर्क गाइड देखें।

清除網路錯誤。按住無線基地台上的 WPS 鍵 **3 秒** 以上，即可進行網路設定。請參閱網路使用說明。

Сүлжээний алдааг арилгана. **3 секунд**-аас дээш дарж, хандалтын цэг дээрх WPS товчийг ашиглан сүлжээний тохиргоог хийнэ. Сүлжээний Заавар-ыг үзнэ үү.

📄 Prints a network status sheet. While pressing, turn on the product to return the network settings to their defaults.

नेटवर्क स्थिति शीट प्रिंट करता है। दबाते समय, उत्पाद चालू करें ताकि नेटवर्क सेटिंग अपने डिफॉल्ट मान पर वापस चले जाएँ।
列印網路狀態表。按下時，開啓印表機可將網路設定恢復為預設值。

Сүлжээний төлвийн хуудсыг хэвлэнэ. Үүнийг дарангаа бүтээгдэхүүнийг асаахад, сүлжээний тохиргоо өгөгдмөл утга руугаа буцна.

⏻ Press to return the print head to its home position. When the ink light is off, press and hold for **3 seconds** to start initial charging or to clean the head.

प्रिंट हेड को उसके मूल स्थान पर लाने के लिए दबाएँ। जब इंक लाइट बंद हो, तो प्रारंभिक चार्जिंग आरंभ करने या हेड साफ करने के लिए इसे **3 सेकंड** तक दबाए रखें।

按下可讓印字頭回到起始位置。墨水指示燈熄滅時，按住 **3 秒** 可開始墨水設定或清潔印字頭。

Үүнийг дарж хэвлэх толгойг анхны байрлал руу нь буцаана. Бэхний гэрэл унтрахад **3 секунд**-ын турш дарж, эхний бэх цэнэглэлт буюу толгойн цэвэрлэгээг хийнэ.

📄 Press to load or eject paper. Press to resume printing after a paper out error or multiple page feed error. Press to cancel printing during a print job. For more details, see the *User's Guide*.


पेपर लोड करने या बाहर निकालने के लिए दबाएँ। पेपर समाप्त त्रुटि या एकाधिक पृष्ठ फीड त्रुटि के बाद प्रिंटिंग पुनः आरंभ करने के लिए दबाएँ। प्रिंटिंग कार्य के दौरान प्रिंटिंग रद्द करने के लिए दबाएँ। अधिक विवरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड देखें।

按下可裝入或退出紙張。按下可在發生缺紙錯誤或多頁進紙錯誤後恢復列印。按下可在列印期間取消列印工作。如需詳細資訊，請參閱進階使用說明。


Үүнийг дарж, цаасыг ачаалах буюу гаргана. Үүнийг дарж, цаас дууссан алдаа буюу олон хуудас татагдсан алдаа гарсны дараа хэвлэлтийг сэргээнэ. Үүнийг дарж, хэвлэх ажлын үед хэвлэлтийг цуцлана. Илүү дэлгэрэнгүйг Хэрэглэгчийн Заавар-аас үзнэ үү.

Loading Paper / पेपर लोड हो रहा ह / 裝入紙張 / Цаасыг Ачаалах


✎ Do not load paper above **▼** mark inside the edge guide.
छोर नरिदेशक चहिन के अंदर **▼** नशान से ऊपर कागज लोड न करें।
放入的紙張厚度請勿超出邊緣定位器內側的 **▼** 記號。
Ирмэг заагч доторх **▼** тэмдгээс дээш цаас бүү ачаалла.




Slide out.
बाहर निकालें।
向外拉出。
Гадагш нь гулсуулна.




Slide the edge guide to the left.
छोर-प्रदर्शक को बाईं ओर खसिकाएँ।
將邊緣定位器滑至左側。
Ирмэг заагчийг зүүн тал руу шахаж гулгуулна.



Load paper with the printable side face-up.
पेपर को प्रिंट वाले भाग ऊपर रखते हुए लोड करें।
放入紙張，並將列印面朝上。
Цаасыг хэвлэгдэх нүүрийг нь дээш харуулж ачаална.




Slide the edge guide against the paper.
छोर नरिदेशक को पेपर के साथ खलिकाएँ।
滑動邊緣定位器，使其靠著紙張。
Ирмэг заагчийг цаас руу шахаж гулгуулна.



Slide out.
बाहर निकालें।
向外拉出。
Гадагш нь гулсуулна.

Print Quality Help / प्रिंट क्वालिटी सहायता / 列印品質說明 / Хэвлэх Чанарын талаарх Түслэмж

✎ If you see missing segments or broken lines in your printouts, try the following solutions.
अगर आपके प्रिंटाउट्स में कुछ छूट गया या टूटी हुई लाइन दिखें, तो नमिन उपायों को अपनाएँ।
如果列印成品出現遺漏部分或斷線，請嘗試以下解決方法。
Хэвлэлтэнд орхигдсон хэсэг юмуу тасархай шугам харагдвал дараах шийдлүүдийг туршаад үз.



Print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged. Turn off the printer, and then turn it back on while holding down **⏻** and **📄**. If you notice any missing segments or broken lines as shown in (b), go to step **2**.

प्रिंट हेड के नोजल में रुकावट की जाँच करने के लिए नोजल जाँच पैटर्न प्रिंट करें। प्रिंटर बंद करें, और फिर **⏻** और **📄** को नीचे दबा कर रखते हुए इसे फिर से चालू करें। यदि आप (b) में दिखाए अनुसार कोई छूटा हुआ खंड या टूटी हुई लाइन देखते हैं, तो चरण **2** पर जाएँ।

列印噴嘴檢查表單，查看印字頭噴嘴是否阻塞。關閉印表機，然後在按住 **⏻** 和 **📄** 的同時重新開機。如果發現任何遺漏部分或斷線 (如 (b) 所示)，請前往步驟 **2**。

Хошуу шалгах хээг хэвлэж хэвлэх толгойн хошуу бөглөрсөн эсэхийг шалга. Принтерийг унтраагаад, **⏻** болон **📄** товчийг дарангаа дахин асаа. Хэрэв (b)-д харуулсан шиг балархай хэсэг буюу тасархай шугам ажиглагдвал **2** алхам руу шилж.



Run the print head cleaning. Hold down **⏻** for **3 seconds** until **⏻** starts flashing.
The cleaning uses some ink from all tanks, so run the cleaning only if print quality declines on your prints.

प्रिंट हेड सफाई चलाएँ। **⏻** को **3 सेकंड** तक नीचे दबाए रखें जब तक **⏻** फ्लैश होना चालू न हो जाए। सफाई में सभी टैंकों की कुछ स्याही का उपयोग होता है, इसलिए केवल आपके प्रिंट की गुणवत्ता घट जाने पर ही सफाई चलाएँ।



執行印字頭清潔。按住 **⏻ 3 秒**，直到 **⏻** 開始閃爍。清潔程序會使所有大容量墨水槽消耗部分墨水，因此僅在列印成品的列印品質降低時，再執行清潔程序。

Хэвлэх толгойн цэвэрлэгээг ажиллуул. **⏻** товчийг **3 секундын** турш **⏻** аничиж эхлэх хүртэл дарна. Цэвэрлэгээнд бүх савнаас тодорхой хэмжээний бэх зарцуулагдах тул, хэвлэлтийн чанар муудсан үед л цэвэрлэгээг ажиллуулаарай.




Clearing Paper Jam / पेपर ज़ाम को दूर करना / 清除夾紙 / Гацсан Цаасыг Авах

1 Open.
खोलें।
打開印表機上蓋。
Нээ.




Remove all of the paper inside, including any torn pieces.
पेपर के फटे टुकड़े से लेकर अंदर मौजूद सभी पेपर को नकालें।
取出内部所有的紙張，包括撕碎的部分。
Цаасны хэлтэрхий зэргээс авхуулаад доторх бүх цаасыг авна.


! Do not touch the white flat cable, translucent part, and ink tubes inside the printer. Doing so may cause a malfunction.
प्रिंटर के अंदर सफेद चौड़े तार, आवरण वाले भाग और इंक ट्यूबों को न छुएं। ऐसा करने से समस्या हो सकती है।
請勿碰觸印表機內部的白色排線、半透明零件及墨水導管。以免造成故障。
Принтерийн дотор байрлах хавтгай цагаан кабел, нэвт гэрэлтэх эд ангиуд болон бэхний хоолойнд бүү хүр. Тэдгээрт хүрэх нь хэвийн ажиллагааг доголдуулна.



3 Close.
बंद करें।
關上。
Хаана.




! If paper still remains near the rear paper feed, gently pull it out.
अगर पेपर रीयर पेपर फीड के समीप है, धीरे से इसे बाहर नकालें।
若後方進紙槽附近仍有夾紙，請輕輕拉出夾紙。
Хэрвээ арын цаас татагч дээр цаас үлдсэн бол аажуухан татаж ав.



4 Load paper correctly, and then press the button.
सही तरीके से पेपर लोड करने के बाद बटन दबाएँ।
正確裝入紙張，然後按下 鍵。
Цаасыг зөв ачаалсны дараа товчлуурыг дар.

Checking Ink Levels and Refilling Ink / इंक सतर की जांच करना और इंक भरना / 檢查墨水存量及填充墨水 / Бэхний Түвшинг Шалгах болон Бэхийг Цэнэглэх



Visually check the ink levels of all ink tanks. If the ink level is below the lower line on the tanks, go to step 2 to refill the tanks.


इंक टैंकों में इंक सतर को संवय से देखें। अगर इंक सतर टैंकों की नचिली रेखा से नीचे हो, तो टैंकों को भरने के लिए चरण 2 पर जाएँ।
目視檢查所有大容量墨水槽的墨水存量。如果墨水存量低於大容量墨水槽的最低標示線，請前往步驟 2 填充大容量墨水槽。

Бүх бэхний савнуудын бэхний түвшинг нүдээр харж шалга. Хэрэв бэхний түвшин саван дээрх доод шугамнаас доогуур байвал **2** алхам руу очиж бэхийг цэнэглэнэ.

! Continuing to use the printer when the ink level is below the lower line could damage the printer. Make sure you visually check the ink levels.

नचिली रेखा से भी नीचे के इंक सतर पर प्रिंटर का प्रयोग इसे खराब कर सकता है। सुनिश्चित कर लें कि आपने इंक सतरों को अपनी आंखों से देखा है।
若在墨水存量低於最低標示線時繼續使用印表機，可能會導致印表機損壞。確定您有目視檢查墨水存量。

Бэхний түвшин доод шугамнаас доогуур болсон үед принтерийг үргэлжлүүлэн ашиглах нь принтерт гэмтэл учруулж болзошгүй. Бэхний түвшинг нүдээр шалгасан эсэхээ магадла.




Refer to steps 2 to 4 in section 3 of the front page to refill the tanks to the upper line.
ऊपरी रेखा तक इंक को भरने के लिए पहले पृष्ठ के खंड 3 में स्तर 2 से 4 तक संदर्भ लें।
請參閱正面第 3 節中的步驟 2 至 4，將大容量墨水槽填充至最高標示線。
Савыг дээд шугам хүртэл нь дүүргэхийн тулд нүүр хуудасны 3-р хэсгийн 2-аас 4 хүртэлх алхмуудыг харна уу.

! If any ink remains in the ink bottle after filling the ink tank up to the upper line, install the cap securely and store the ink bottle upright for later use.

अगर किसी इंक बोतल में टैंक की ऊपरी रेखा तक इंक भरने के बाद भी इंक बच रही हो, तो बोतल के कैप को कसकर बंद करें और इंक बोतल खड़ी अवस्था में अगले प्रयोग के लिए सुरक्षित रख लें।
將墨水填充至大容量墨水槽的最高標示線後，如果墨水瓶內有剩餘墨水，請控緊瓶蓋並直立存放墨水瓶，以供日後使用。

Хэрэв бэхний савны дээд шугам хүртэл дүүргэсний дараа бэхний лонхонд бэх үлдвэл, дараа ашиглахын тулд тагийг нь сайтар таглан босоогоор нь хадгална.



Error Indicators / समस्या सूचक / 錯誤指示燈號 / Алдаа Заагч

! If the product stops working and the lights are on or flashing, use the following table to diagnose and solve the problem. For more details, see the *User's Guide*.

अगर उत्पाद कार्य करना बंद कर दे और प्रकाश परदीप्त हो रही हो, तो समस्या की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए निम्नलिखित तालिका का उपयोग करें। अधिक विवरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड देखें।

若印表機停止運作且燈號亮起或閃爍，請利用下表診斷並解決問題。如需詳細資訊，請參閱進階使用說明。

Хэрэв бүтээгдэхүүн ажиллахгүй, гэрэл нь асаалттай эсвэл анивчиж байвал дараах хүснэгтийг ашиглан асуудлыг оношилж шийдвэрлэнэ үү. Илүү дэлгэрэнгүйг Хэрэглэгчийн Заавар-аас үзнэ үү.

: On / चालू / 亮起 / Асаалттай


: Flashing slowly / धीरे-धीरे फ्लैश हो रहा है / 緩慢閃爍 / Удаанаар анивчих

: Flashing fast / तेजी से फ्लैश हो रहा है / 快速閃爍 / Хурдан анивчих


	Initial ink charging is not complete. See steps 1 to 7 in section 3 on the front page. आरंभिक इंक चार्जिंग पूरी नहीं हुई है। आगे के पृष्ठ पर खंड 3 में 1 से 7 चरण देखें। 初次墨水設定未完成。請參閱正面單元 3 中的步驟 1 至 7。 Эхний бэх цэнэглэлт хийгдэж дуусаагүй байна. Нүүр хуудсан дахь 3-р хэсгийн 1-ээс 7 хүртэлх алхмуудыг үзнэ үү.
	The printer cover is open during printing. Close the printer cover. प्रिंटिंग के दौरान प्रिंटर कवर खुला है। प्रिंटर कवर बंद करें। 印表機護蓋在列印期間打開。關上印表機護蓋。 Хэвлэх үед принтерийн таг нээлттэй байна. Принтерийн тагийг хаа.
	A printer error has occurred. Remove any paper or protective material inside the printer and turn the power off and on again. For more details, see the <i>User's Guide</i> . प्रिंटर त्रुटि हुई है। प्रिंटर से सभी पेपर या सुरक्षा सामग्री नकालें तथा पावर बंद करें और फिर से चालू करें। अधिक विवरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड देखें। 發生印表機錯誤。移除印表機內的任何紙張或保護膠帶，然後關閉並重新開啓電源。如需詳細資訊，請參閱進階使用說明。 Принтерийн алдаа гарлаа. Принтер доторх аливаа бүх цаас болон хамгаалах материалыг гаргаад, тэжээлийг унтрааж асаана. Илүү дэлгэрэнгүйг Хэрэглэгчийн Заавар-аас үзнэ үү.
	A Wi-Fi connection error has occurred. Hold down the button for more than 3 seconds . For more details, see the <i>Network Guide</i> . Wi-Fi कनेक्शन त्रुटि हुई है। बटन को 3 सेकंड से अधिक अवधि तक नीचे दबाए रखें। अधिक विवरण के लिए नेटवर्क गाइड देखें। 發生 Wi-Fi 連線錯誤。按住 鍵 3 秒 以上。如需詳細資訊，請參閱網路使用說明。 Wi-Fi холболтын алдаа гарлаа. товчийг 3 секунд -аас дээш дар. Илүү дэлгэрэнгүйг Сүлжээний Заавар-аас үзнэ үү.

Transporting / उत्पाद ले जाना / 搬運 / Тээвэрлэх


1 Secure print head with a tape.
प्रिंट हेड को एक टेप से सुरक्षित कर लें।
使用膠帶固定印字頭。
Хэвлэх толгойг туузаар дарна.



2 Close securely.
सुरक्षित रूप से बंद कर दें।
將大容量墨水槽蓋牢牢拴緊。
Сайтар таглана.




3 Make sure to hook on.
यह सुनिश्चित कर लें कि हुक बंद है।
確定大容量墨水槽已掛回本產品上。
Дэгээ түгжигдсэн эсэхийг магадла.



4 Pack the printer with protective materials to prevent the ink tank unit from being unhooked.
टैंक यूनिट को अनहुक होने से बचाने के लिए प्रिंटर को सुरक्षा आवरणों के साथ पैक करें।
使用保護材料包裝印表機，避免大容量墨水槽脫離印表機。
Бэхний савны нэгжийг мулттрахаас сэргийлж хамгаалах материалаар принтерийг баглаарай.

! Keep the printer level as you transport it. Otherwise, ink may leak. As you transport the ink bottle, be sure to keep it upright when tightening the cap, and take measures to prevent ink from leaking.
प्रिंटर को ले जाते समय इसे सीधा रखें। अन्यथा, इंक लीक हो सकती है। जैसे आप इंक बोतल ले जा रहे हों, तो ढक्कन बंद करते समय सुनिश्चित करें कि बोतल सीधी अवस्था में है, और इंक की लीकेज से बचने के उपाय अपनाएँ।
搬運時請將印表機保持在水平的狀態。否則墨水可能會漏出。控緊瓶蓋時，請確定墨水瓶保持直立，並採取防護措施以免搬運時導致墨水外漏。
Тээвэрлэхдээ принтерийг тэгшхэн байлга. Эс бөгөөс бэх гоожиж болзошгүй. Бэхний лонхыг тээвэрлэхдээ, босоо чигт барин тагийг сайтар таглаж бэх гоожихоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авна уу.



! After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.

पहुंचने के बाद, प्रिंट हेड की सुरक्षा के लिए लगे टेप को हटा दें। अगर आप प्रिंट गुणवत्ता में कमी पा रहे हों, तो एक बार क्लीनिंग करें या प्रिंट हेड को एलाइन करें।

搬運至定點後，請撕下印字頭的膠帶。如果您發現到列印品質有降低，請清潔或校正印字頭。

Зөвөрлөсний дараа хэвлэх толгойг дарсан туузыг авна. Хэрэв хэвлэлтийн чанар муудсан нь анзаарагдвал цэвэрлээний шат дамжлагыг ажиллуулах эсвэл хэвлэх толгойг тэгшлэ.

Safety Instructions / सुरक्षा नरिदेश / 安全說明 / Аюулгүй байдлын Зааварчилгаа



Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.

केवल प्ररिटर के साथ मलि पाँवर तार का प्रयोग करें। कसि अनूय तार का प्रयोग आग या वरिद्युत शॉक का कारण बन सकता है। कसि अनूय उपकरण के साथ तार का प्रयोग न करें।

僅限使用印表機隨附的電源線。使用其他電源線可能導致起火或觸電。請勿使用其他設備的電源線。

Зөвхөн принтертэй хамт ирсэн цахилгааны утсыг хэрэглэ. Өөр төрлийн утас ашиглах нь гал гарах, тог цохих аюултай. Цахилгааны утсыг өөр төхөөрөмжд бүү хэрэглэ.



Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.

सुनशिचति कर लें क आपका वरिद्युत पाँवर तार स्थानीय सुरक्षा मानको पर उचति है।

確定 AC 電源線符合當地的安全標準。

AC цахилгааны утас нь дотоодын холбогдох аюулгүй байдлын стандартыг хангаж байгаа эсэхийг магадла.



Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.

आपके कागज़ों में वशिष रूप से दरशाए गए वशिषों के अतरिकित, प्ररिटर में कसि भी तरह की सरवसि सुवय न करें। 除非是文件中有特別說明之處，否則請勿企圖自行維修本產品。

Баримт бичигт тусгайлан заагаагүй бол та өөрөө принтертэй үйлчилгээ хийх гэж бүү оролд.



Do not let the power cord become damaged or frayed. पाँवर तार को खराब या कटा-फटा न होने दें।

請勿使用損壞或磨損的電源線。

Тэжээлийн утсыг гэмтээх юмуу шалбалж болохгүй.



Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.

प्ररिटर को दीवार में लगे पाँवर बोरुड के पास रखें जसिसे आसानी से इसे निकाला जा सके।

將印表機放置在容易拔出電源線的電源插座附近。

Тэжээлийн утсыг салгахад хялбараар принтерийг хананы залгуурт ойрхон байрлуул.



Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.

उत्पाद को बाहर खुले में, गंदी धूल भरी जगहों, पानी, गरम स्थानों के नजदीक या वरिद्युत शॉक, कंपनों, उच्च तापमानों या नमी वाले स्थानों पर न रखें।

請勿將印表機放置或儲存在室外、靠近灰塵粉末較多之處、水源、熱源，以及易震動、搖晃或高溫潮濕的地方。

Бүтээгдэхүүнийг гадаа хэт их тоос шороо, ус, дулааны эх үүсвэрт ойрхон болон цахилгааны цохилт, чичиргээ, өндөр температур, чийгшил үүсэх газар тавих болон хадгалж болохгүй.



Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.

ध्यान रखें क उत्पाद पर न तो कोई तरल पदार्थ गरि और न ही इसे गीले हाथों से उठाएं।

請小心避免將任何液體潑灑在這台印表機上，雙手潮濕時請勿操作印表機。

Бүтээгдэхүүний дээрээс шингэн зүйл асгах болон нойтон гараар барихаас болгоомжил.



Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.

इंक बोटलों और इंक टैंक यूनिट को बच्चों की पहुँच से दूर रखें और इंक को पीएं नहीं।

將墨水瓶放在孩童取不到之處，以免孩童誤飲到墨水。

Бэхний лонх болон бэхний савны нэгжийг хүүхдийн гар хүрэхгүй газар тавирай, мөн бэхийг уухыг хориглоно.



Do not tilt or shake an ink bottle after removing its seal; this can cause leakage.

सील निकालने के बाद इंक बोटल को हलियां-डुलाएं नहीं, ऐसा करने से इंक लीक हो सकती है।

打開墨水瓶的真空包裝袋後，請勿搖晃墨水瓶，否則可能會造成墨水外漏。

Лацыг задалсны дараа бэхний лонхыг хазайлгах юмуу сэгсэрч болохгүй; гоожиж болзошгүй.



Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.

इसका ध्यान रखें क इंक की बोटलें सीधी अवस्था में हैं और झटकों या तापमान बदलाव से सुरक्षति हैं।

務必將墨水瓶保持直立，請勿讓墨水瓶受到撞擊或劇烈溫度變化。

Бэхний лонхыг босоо байрлалд, гадны нөлөө юмуу температурын өөрчлөлтөнд автуулахгүй байх шаардлагатай.



If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, spit it out immediately and see a doctor right away.

अगर इंक आपकी त्वचा पर गरि जाती है, तो इसे अच्छी तरह से साबुन व पानी से धोएं। अगर इंक आपकी आंखों में चली जाती है, तो उन्हें तुरत ही पानी से धो डालें। अगर अच्छी तरह से साफ करने के बाद भी आपको परेशानी या दृषुटि समस्या आ रही हो, तो तुरत ही डॉक्टर से संपर्क करें। अगर इंक आपके मुँह में चली जाती है, तो तुरत थूक दें, और डॉक्टर की सलाह लें।

若墨水碰到皮膚，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若徹底沖洗過後仍感到不適或對視覺造成影響，請馬上就醫。若墨水進入口中，請立即吐出並就醫。

Хэрэв бэх арьсан дээр асгарвал усаар савандаж сайтар угаана. Хэрэв бэх нүдэнд орвол тэр даруйд нь усаар булхаж зайлна. Хэрэв усаар сайтар зайлсны дараа ч тавгүй эсвэл хараа асуудалтай байвал тэр даруйдаа эмчид хандана уу. Хэрвээ бэх таны ам руу орвол тэр даруй нулимж шууд эмчид хандаарай.

Information for Users in Taiwan Only / 台灣使用者適用資訊

L805

產品名稱：彩色噴墨印表機

□ 額定電壓：AC 100-120 V

□ 額定頻率：50 至 60 Hz

□ 耗電量：

列印時：約 13 W

就緒模式：約 3.3 W

省電模式：約 1.0 W

關機模式：約 0.2 W

□ 額定電流：0.6 A

製造年份，製造號碼和生產國別：見機體標示

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

□ 列印方式：微針點壓電噴墨技術

□ 解析度：最大可達 5760 × 1440 dpi

□ 適用系統：

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

使用方法

見內附相關說明文件

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

□ 電源線或插頭損壞

□ 有液體噴灑到印表機

□ 印表機摔落或機殼損壞

□ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

□ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。

□ 請保持工作場所的通風良好。

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken, 399-0785, JAPAN

電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓

電話：(02) 8786-6688 (代表號)

Ink Bottles / इंक बोटल / 墨水瓶 / Бэхний Лонх

Bk	C	M	Y	LC	LM
673	673	673	673	673	673



Use of genuine Epson ink other than specified could cause damage that is not covered by Epson's warranties.

Epson की वास्तवकि इंक के अतरिकित कसि अनूय इंक का प्रयोग नुकसान कर सकता है, जो Epson वारंटी में ग्राहय नहीं होगा।

若使用非本手冊所指定的 Epson 原廠墨水，可能會損壞印表機，且不在 Epson 的保固範圍內。

Зааснаас бусад Epson-ы жинхэнэ бэх хэрэглэх нь Epson-ны баталгаанд үл хамрагдах гэмтэл учруулж болзошгүй.

Questions?



You can open the *User's Guide* (PDF) and *Network Guide* (PDF) from the shortcut icon, or download the latest versions from the following website.

आप उपयोगकर्ता गाइड (PDF) और नेटवर्क गाइड (PDF) को शॉर्टकट आइकन से खोल सकते हैं या नमिनलखिति वेबसाइट से नवीनतम संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं।

您可從捷徑圖示啓動進階使用說明 (PDF) 及網路使用說明，或從下列網站下載最新版本。

Та Хэрэглэгчийн Заавар (PDF) болон Сүлжээний Заавар (PDF)-г товчилбор тэмдгээс нээх юмуу дараах вэб хуудаснаас хамгийн сүүлийн хувилбараар татан авч үзэх боломжтой.

 <http://support.epson.net/>

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.

Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android™ is a trademark of Google Inc.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

